

-:प्रेस नोट दिनांक 27.07.2021:-

थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

थाना नवाबगंज #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 189/2021 से सम्बन्धित दो अभियुक्तों 1. जगदीश राठौर 2. मो0 जावेद को किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नवाबगंज महोदय व प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना नवाबगंज पर कूटरचित फर्जी अभिलेख तैयार कर सम्भागीय खाद्य विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराकर तहसील से सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित केन्द्रों पर धान क्रय केन्द्र पर बेचकर अपने खाते में भुगतान कराकर धान खरीद में सेंधमारी कर निजी स्वार्थवश आर्थिक लाभ प्राप्त किया तथा किसान हित में संचालित शासन की धान क्रय योजना को विफल करने की धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में दिनांक 21.05.2021 को मु0अ0सं0 0189/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम श्री प्रमोद कुमार आदि 74 नफर पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगणों में से अभियुक्तगण 1- जगदीश राठौर पुत्र कालीचरन नि0 मो0 गांधीटोला थाना नवाबगंज जिला बरेली 2- मो0 जावेद पुत्र मो0 कलीम नि0 मो0 गांधीटोला थाना नवाबगंज जिला बरेली को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.07.2021 को समय 08.30 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गये अभियुक्तगणों ने पूछताछ के दौरान कुछ धान मिल मालिक व धान मिल पर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर कूटरचित फर्जी अभिलेख तैयार कर सम्भागीय खाद्य विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराकर तहसील से सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित केन्द्रों पर धान क्रय केन्द्र पर बेचकर खाते में भुगतान कराकर धान खरीद में सेंधमारी कर निजी स्वार्थवश आर्थिक लाभ प्राप्त किया तथा किसान हित में संचालित शासन की धान क्रय योजना को विफल करने की धोखाधड़ी करना बताया है। धान मील मालिक व धान मिल पर काम करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में गहराई से जानकारी कर अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा पकड़े गये अभियुक्तगणों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- जगदीश राठौर पुत्र कालीचरन नि0 मो0 गांधीटोला थाना नवाबगंज जिला बरेली उम्र 28 वर्ष
- 2- मो0 जावेद पुत्र मो0 कलीम नि0 मो0 गांधीटोला थाना नवाबगंज जिला बरेली उम्र करीव 21 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

- 1- जगदीश राठौर पुत्र कालीचरन नि0 मो0 गांधीटोला थाना नवाबगंज जिला बरेली उम्र 28 वर्ष मु0अ0सं0 0189/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना नवाबगंज ,बरेली
- 2- मो0 जावेद पुत्र मो0 कलीम नि0 मो0 गांधीटोला थाना नवाबगंज जिला बरेली उम्र करीव 21 वर्ष मु0अ0सं0 0189/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना नवाबगंज ,बरेली

बरामदगी का विवरण:- निल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना नवाबगंज ,बरेली
- 2.का01417 सौरभ भाटी थाना नवाबगंज ,बरेली
- 3.का01496 सुमित शर्मा थाना नवाबगंज ,बरेली

(धनन्जय सिंह)
प्रभारी निरीक्षक
थाना नवाबगंज, बरेली।